



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2

PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 18, 2010/अग्रहायण 27, 1932

No. 25]

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 18, 2010/AGRAHAYANA 27, 1932

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2010

फा. सं. ए-19012/6/2006-डीआरटी.—बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 4 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री वी. एस. रवि, पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-I, चैन्नै को तत्काल प्रभाव से तीन महीनों की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपने कार्यभार के अतिरिक्त, ऋण वसूली अधिकरण, विशाखापट्टनम के पीठासीन अधिकारी के कार्यों का भी निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करती है।

वी. के. चोपड़ा, उप-सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 2010

F. No. A.-19012/6/2006-DRT.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 4 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government hereby authorizes Shri V. S. Ravi, Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal-I, Chennai, to discharge the functions of Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal, Visakhapatnam, in addition to his own charge with immediate effect for a period of three months or until further orders, whichever is earlier.

V. K. CHOPRA, Dy. Secy.